



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 551] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 1982/अग्राहयण 29, 1904
No. 551] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 1982/AGRAHAYAN 29, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1982

सं० आ० 853 (अ) केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम,
1906 (1906 का 3) की धारा 7 के साथ पठित उमकी धारा 21 की
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित
नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (राष्ट्रीय एकता
1982 के लिए) अधीन 50%, तांबा 40%, निकल 5% और जस्ता

5% से बने एक सौ रुपए के, तांबा 75% और निकल 25% से बने
दस रुपए, शी रुपए और पचास पैसे के सिक्कों का मानक वजन और
उपचार) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय एकता, 1982 लेख के साथ निर्मित कतिपय शक्ति मूल्य
के सिक्कों का मानक वजन और उपचार।

राष्ट्रीय एकता, 1982 के अन्तर्गत से सिक्का निर्माण अधिनियम
1906 (1906 का 3) की धारा 6 के उपबंधों के अधीन निर्मित।

निम्नलिखित शक्ति मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और उनके बनाने में अनुज्ञात उपचार बहू होगा या नीचे मारणी में चिह्नित है:—

सारणी

शक्ति मूल्य	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		सरचना से	मानक वजन से
1	2	3	4
एक सौ रुपए	35 ग्राम	चांदी के लिए 2/1000वां अत आ ऋण अर्थात् चांदी की मात्रा प्रतिहजार 498 से 502 तक बढ़ बढ़ सकती है।	1/100वां अत आ ऋण अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक बढ़ बढ़ सकता है।

1	2	3	4
बस रूप	25 ग्राम	सावा और निकल दोनों के लिए 1/100वां घन या ऋण अर्थात् तांबा 74% से 76% तक और निकल 24% से 26% तक घट बढ़ सकता है।	1/40वां घन या ऋण अर्थात् वजन 24.375 ग्राम से 25.625 ग्राम तक घट बढ़ सकता है।
दो रूप	8 ग्राम	सावा और निकल दोनों के लिए 1/100वां घन या ऋण अर्थात् तांबा 74% से 76% तक और निकल 24% से 26% तक घट बढ़ सकता है।	1/40वां घन या ऋण अर्थात् वजन 8.20 ग्राम से 7.80 ग्राम तक घट बढ़ सकता है। 1/40वां घन या ऋण अर्थात् वजन 4.875 ग्राम से 5.125 ग्राम तक घट बढ़ सकता है।
पचास पैसे	5 ग्राम	सावा और निकल दोनों के लिए 1/100वां घन या ऋण अर्थात् तांबा 74% से 76% तक और निकल 24% से 26% तक घट बढ़ सकता है।	मकता है।

[(फा० सं० 1/2(1)/82-व्यायन)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th December, 1982

S.O. 853(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 read with section 7 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement:—

- (1) These rules may be called the Coinage (Standard Weight and Remedy of the Commemorative Coins of One Hundred Rupees containing Silver 50%, Copper 40%,

Nickel 5% and Zinc 5%, Ten Rupees, Two Rupee and Fifty Paise each containing Copper 75% and Nickel 25%, Coined for National Integration, 1982) Rules, 1982.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Standard Weight and Remedy on coins of certain denominations, coined with the theme National Integration, 1982 :

The standard weight of the coins of the following denominations, coined under the provisions of section 6 of the Coinage Act 1906 (3 of 1906) in commemoration of National Integration, 1982, and the remedy allowed in the making of such coins shall be as specified in the Table below:—

TABLE

Denomination	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	in standard weight
1	2	3	4
One Hundred Rupees	35 Grammes	2/1000 th plus or minus for silver that is to say the silver contents could vary from 498 to 502 per Thousand.	1/100th plus or minus that is to say the weight could vary from 34.65 grammes to 35.35 grammes
Ten Rupees	25 Grammes	1/100th plus or minus both for copper and nickel that is to say copper could vary from 74% to 76% and nickel from 24% to 26%	1/40th plus or minus that is to say the weight could vary from 24.375 grammes to 25.625 grammes.
Two Rupees	8 Grammes	1/100th plus or minus both for copper and Nickel that is to say copper could vary from 74% to 76% and Nickel from 24% to 26%	1/40 th plus or minus that is to say the weight could vary from 8.20 grammes to 7.80 grammes.
Fifty Paise	5 Grammes	1/100th plus or minus for both copper and Nickel that is to say copper could vary from 74% to 76% and Nickel from 24% to 26%.	1/40th plus or minus that is to say the weight could vary from 4.875 grammes to 5.125 grammes.

[No. F 1/2(1)/82-Coin]

का० आ० 854 (अ) —केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अध्याध्याय करती है कि —

(क) निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्के भी राष्ट्रीय एकता 1982 के संस्मरण में केन्द्रीय सरकार के प्राधिकारधीन जारी किए जाने के लिए टंकाल में बनाए जाएंगे, अर्थात् —

(i) एक सौ रुपए

(ii) दस रुपए

(iii) दो रुपए

(iv) पचास पैसे

(ख) उपरोक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित शिमाओं डिजाइन और संरचना के अनुसूप होंगे अर्थात् —

सिक्के का अंकित मूल्य	आकार और बाहरी व्यास	सिरेपानों की संख्या	धातु संरचना
एक सौ रुपए	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुष्क चादा 50% तांबा 40% निकल 5% जस्ता 5%
दस रुपए	वृत्ताकार 39 मिलीमीटर	180	तांबा-निकल तांबा 75% निकल 25%
दो रुपए	वृत्ताकार 28 मिलीमीटर	200	तांबा-निकल तांबा 75% निकल 25%
पचास पैसे	वृत्ताकार 24 मिलीमीटर	205 (सुरक्षा किनारेदार)	तांबा-निकल तांबा 75% निकल 25%

डिजाइन

एक सौ रुपए

मुख्य भाग सिक्के के इस भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह गुम्बज होगा और "सत्यमेव जयते" सार वाक्य उसके नीचे अंकित होगा। उसके बायें ऊपरी भाग में "भारत" शब्द और दायें ऊपरी भाग में "INDIA" शब्द अंकित होगा। उस पर अंकित मूल्य "100" अंतरराष्ट्रीय अंको में लिखा होगा और उसके बायें निचले भाग में "रुपए" शब्द और दायें निचले भाग में "RUPEES" शब्द अंकित होगा।

पृष्ठ भाग सिक्के के इस भाग पर भारत का मानचित्र होगा जिसके ऊपरी भाग में "राष्ट्रीय एकता" मुद्रालेख के साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंकित होगा और दायें भाग में "NATIONAL INTEGRATION" मुद्रालेख अंकित होगा।

दस रुपए

मुख्य भाग सिक्के के इस भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह गुम्बज होगा और "सत्यमेव जयते" सार वाक्य उसके नीचे अंकित होगा। उसके बायें ऊपरी भाग में "भारत" शब्द और दायें ऊपरी भाग में "INDIA" शब्द अंकित होगा। उस पर अंकित मूल्य "10" अंतरराष्ट्रीय अंको में लिखा होगा और उसके बायें निचले भाग में "रुपए" शब्द और दायें निचले भाग में "RUPEES" शब्द अंकित होगा।

पृष्ठ भाग सिक्के के इस भाग पर भारत का मानचित्र होगा जिसके ऊपरी भाग में "राष्ट्रीय एकता" मुद्रालेख के साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंकित होगा और दायें भाग में "NATIONAL INTEGRATION" मुद्रालेख अंकित होगा।

दो रुपए

मुख्य भाग सिक्के के इस भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह गुम्बज होगा और "सत्यमेव जयते" सार वाक्य उसके नीचे अंकित होगा। उसके बायें ऊपरी भाग में "भारत" शब्द और दायें ऊपरी भाग में "INDIA" शब्द अंकित होगा। उस पर अंकित मूल्य "22" अंतरराष्ट्रीय अंको में लिखा होगा और उसके बायें निचले भाग में "रुपए" शब्द और दायें निचले भाग में "RUPEES" शब्द अंकित होगा।

पृष्ठ भाग सिक्के के इस भाग पर भारत का मानचित्र होगा जिसके ऊपरी भाग में "राष्ट्रीय एकता" मुद्रालेख के साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंकित होगा और दायें भाग में "NATIONAL INTEGRATION" मुद्रालेख अंकित होगा।

पचास पैसे

मुख्य भाग सिक्के के इस भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह गुम्बज होगा और "सत्यमेव जयते" सार वाक्य उसके नीचे अंकित होगा। उसके बायें ऊपरी भाग में "भारत" शब्द और दायें ऊपरी भाग में "INDIA" शब्द अंकित होगा। उस पर अंकित मूल्य "50" अंतरराष्ट्रीय अंको में लिखा होगा और उसके बायें निचले भाग में "पैसे" शब्द और दायें निचले भाग में "PAISE" शब्द अंकित होगा।

पृष्ठ भाग सिक्के के इस भाग पर भारत का मानचित्र होगा जिसके ऊपरी भाग में "राष्ट्रीय एकता" मुद्रालेख के साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंकित होगा और दायें भाग में "NATIONAL INTEGRATION" मुद्रालेख अंकित होगा।

[सं० ए० 1/2 (2)/82-क्यायन]

सी० जी० पायरोज, अवर सचिव

S.O. 854(E):—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that,—

(a) the coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government in commemoration of the National Integration, 1962, namely:—

(i) One Hundred Rupees,

(ii) Ten Rupees,

(iii) Two Rupees,

(iv) Fifty Paise;

(b) the coins of the above denominations shall conform to the following dimensions, designs and composition, namely:—

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition	
1	2	3	4	5
One Hundred Rupees	Circular 44 millimetre	200	Quaternary Silver Copper Nickel Zinc	Alloy 50% 40% 5% 5%
Ten Rupees	Circular 39 Millimetre	180	Cupro-Nickel Copper Nickel	75% 25%
Two Rupees	Circular 28 Millimetre	200	Cupro-Nickel Copper Nickel	75% 25%
Fifty Paise	Circular 24 Millimetre	205 (Security edged).	Cupro-Nickel Copper Nickel	75% 25%

DESIGNS

ONE HUNDRED RUPEES :

Obverse: This face of the coins shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word "भारत" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "100" in international numerals flanked on the left lower periphery with the word "रुपये" and on the right lower periphery with the word "RUPEES".

Reverse: This face of the coin shall bear the map of India with National Flag of India flanked on the upper periphery with the inscription "राष्ट्रीय एकता" and on the right periphery with the inscription "National Integration".

TEN RUPEES

Obverse: This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word "भारत" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "10" in international numerals flanked on the left lower periphery with the word "रुपये" and on the right lower periphery with the word "RUPEES".

Reverse: This face of the coin shall bear the map of India with National Flag of India flanked on the upper periphery with the inscription "राष्ट्रीय एकता" and on the right periphery with the inscription "National Integration."

TWO RUPEES :

Obverse: This face of the coin shall bear Lion Capital of Ashoka Pillar with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below flanked on the left upper periphery with the word "भारत" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "2" in international numerals flanked on the left lower periphery with the word "रुपये" and on the right lower periphery with the word "RUPEES".

Reverse: This face of the coin shall bear the map of India with National Flag of India flanked on the upper periphery with the inscription "राष्ट्रीय एकता" and on the right periphery with the inscription "National Integration".

FIFTY PAISE:

Obverse: This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar flanked on the left upper periphery with the word "भारत" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "50" in international numerals flanked on the left lower periphery with the word "पैसे" on the right lower periphery with the word "PAISE".

Reverse: This face of the coin shall bear the map of India with National Flag of India flanked on the upper periphery with the inscription "राष्ट्रीय एकता" and on the right periphery with the inscription "National Integration".

[No. F-1/2 (II)/82-Coin]
C. G. PATHROSE, Under Secy.